



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

28 फरवरी 2025

### बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जनवरी 2025

जनवरी 2025<sup>1</sup> माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर, खाद्येतर बैंक ऋण<sup>2</sup> 24 जनवरी 2025<sup>3</sup> को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.5 प्रतिशत (तीन माह में उच्च) की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 16.2 प्रतिशत था (26 जनवरी 2024)।

बैंक ऋण<sup>3</sup> के क्षेत्रवार अभिनियोजन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में 24 जनवरी 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.2 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 20.0 प्रतिशत)।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 24 जनवरी 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 8.2 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 7.5 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन', 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' और 'सभी अभियांत्रिकी' को बकाया ऋण में तेज वृद्धि हुई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि 24 जनवरी 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार कम होकर 13.8 प्रतिशत (व-द-व) हो गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 21.0 प्रतिशत), जिसमें 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (एनबीएफसी) और व्यापार खंड हेतु प्रदत्त ऋण में धीमी वृद्धि हुई। तथापि, 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' की ऋण वृद्धि (व-द-व) में तेजी आई।
- वैयक्तिक ऋण खंड हेतु प्रदत्त ऋण में 24 जनवरी 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 14.2 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष में यह 18.2 प्रतिशत थी, जिसका मुख्य कारण 'अन्य वैयक्तिक ऋण', 'वाहन ऋण' एवं 'क्रेडिट कार्ड बकाया' खंडों में वृद्धि की दर में गिरावट थी।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2276

अजीत प्रसाद

उप महाप्रबंधक (संचार)

<sup>1</sup> आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

<sup>2</sup> खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

<sup>3</sup> बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।